



# Punjab Government Gazette

## EXTRAORDINARY

*Published by Authority*

CHANDIGARH, FRIDAY, APRIL 26, 2024 (CHAITRA 6, 1946 SAKA)

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

**Dated: 23<sup>rd</sup> April, 2024**  
**3 Vaisakha, 1946 (Saka)**

### NOTIFICATION

**No. 434/PB-HP/2024(1):-** In pursuance of the provision of sub-Section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby designates, in consultation with the Government of Punjab, Officers of Government as specified in column (2) of the table below as Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Punjab, as specified in column(1) of the said Table against such officer:-

### TABLE

<b>Returning Officer of PC</b>	<b>Assistant Returning Officer for ETPBMS of Pre-Counting</b>	<b>Assistant Returning Officer for Postal Ballot Counting &amp; ETPBMS to assist the RO</b>
1.Gurdaspur	1.DDPO Gurdaspur 2.DRO, Gurdaspur 3.DEO (S), Gurdaspur 4.District Sports Officer, Gurdaspur	1.Soil Conservation Officer, Gurdaspur 2.District Employment Officer, Gurdaspur 3.BDPO Batala 4.Agriculture Officer, Sri Hargobindpur, Gurdaspur 5.Secretary Market Committee Kalanaur 6.Principal GSSS B Dinanagar 7.Principal, GSSS Sidhwan 8.Principal, GSSS Girls, Saidowal Khurd 9.Principal, GSSS, Nainkot 10.Principal GSSS Sheikhpur 11.Principal GSSS Boys FatehgarhChurian 12.Principal ITI Dera Baba Nanak 13.Principal, GSSS BahadarpurRajoya 14.Principal, GSSS Khojala 15.Principal, GSSS Barath Qazi chak 16.Principal GSSS Qila Tek Singh 17.Principal GSSS Ghuman Kalan 18.Principal GSSS Gurdaspur

		19.Principal GSSS Gurdas Nangal
2.Amritsar	<p>1.Executive Engineer Water Supply &amp; Sanitation Division No. 3, Amritsar</p> <p>2.Senior Fishery Officer, Rajasansi</p>	<p>1.Naib Tehsildar, Attari</p> <p>2. Naib Tehsildar (Recovery), Ajnala</p> <p>3. Naib Tehsildar Amritsar-1</p> <p>4. Sub Divisonal Engineer, Amritsar Development Authority,PUDA, Amritsar</p> <p>5. Agriculture Extension Officer, Kathunangal, Majitha</p> <p>6. ADO (Marketing), Amritsar</p> <p>7. Secretary, Municipal Corporation, Amritsar</p> <p>8. Senior Branch Manager, MARKFED Majitha</p> <p>9. Principal DAV College, Amritsar</p> <p>10. Supdt. Water Supply &amp; Sanitation, Amritsar</p> <p>11. Principal, GSSS, Chabba</p> <p>12. Lect.Physics, Mai Bhago Govt. Polytechnic College for Girls, Amritsar</p> <p>13. Lecturer, Political Science, GSSS, Bhakna</p> <p>14. Lecturer English, School of Eminence , Chheharta</p> <p>15. Lect. Computer Science, Mai Bhago Polytechnic College for Girls, Amritsar</p> <p>16. Lecturer, Physical Education, GSSS, Othian</p>
3.Khadoor Sahib	<p>1.Principal, GSSS Ekal Gadda</p> <p>2. Principal, GSSS Mianwind</p> <p>3. Principal, GSSS Tur</p> <p>4. Principal, GSSS Lauhka</p>	<p>1. Principal, GSSS (Boys) Patti</p> <p>2. Principal, GSSS Sakhira</p> <p>3. Principal, GSSS Rataul</p> <p>4. Principal, GSSS Pakhoke</p> <p>5. Principal, GSSS Bhikhiwind</p> <p>6. Lecturer Punjabi GSSS Harike</p> <p>7. Lecturer Mathematics GSSS Mianwind</p> <p>8. Lecturer Economics, GSSS Mianwind</p> <p>9. Lecturer Economics, GSSS Bath</p> <p>10.Lecturer Punjabi, GSSS Bath</p> <p>11.Lecturer Mathematics, GSSS Bath</p> <p>12.LecturerPunjabi, GSSS Manochahal Kalan</p> <p>13.Lecturer Physical Edu., GSSS Manochahal Kalan</p> <p>14.Lecturer English, GSSS Kang</p> <p>15.Lecturer History, GSSS Bahmaniwala</p>



		16. Lecturer Mathematics, GSSS Jhabal Kalan 17. Lecturer Hindi, GSSS (Boys) Tarn Taran 18. Lecturer Biology, GSSS (Girls) Tarn Taran 19. Lecturer Punjabi, GSSS Sohal
4. Jalandhar	1. Additional Deputy Commissioner (Urban Development), Jalandhar	1. Dy. Director, Land Records, Punjab, Kapurthala Road, Jalandhar 2. Assistant Labour Commissioner, Jalandhar 3. Deputy DEO (SE), Jalandhar 4. SDO, Divisional Soil, Conservation Office, Jalandhar
5. Hoshiarpur (SC)	1. Additional Deputy Commissioner (Rural Development), Hoshiarpur  2. XEN Water Supply & Sanitation, Division No.1, Hoshiarpur  3. Supdt. Grade-1. O/o Deputy Commissioner, Hoshiarpur	1. Agriculture Development Officer, Hoshiarpur 2. Lecturer, Pt. J.R. Polytechnic College, Hoshiarpur 3. Dy. Chief Executive Officer, Zila Parishad, Hoshiarpur 4. XEN, Water Supply & Sanitation, Division Talwara 5. XEN, PSPCL, Dasuya 6. Tehsildar Tanda 7. Naib Tehsildar, Sham Chaurasi 8. Associate Prof., History, DAV College, Hoshiarpur 9. Sub Division Officer, O/o S.E. Canal & Dam, Hoshiarpur
6. Anandpur Sahib	1. SDM Nangal	1. District Revenue Officer, Rupnagar 2. BDPO, Rupnagar 3. BDPO, Sri Chamkaur Sahib 4. BDPO, Sri Anandpur Sahib 5. XEN, Water Supply & Sanitation-2, Rupnagar 6. XEN, Water Supply & Sanitation-1, Rupnagar 7. XEN, PWD National Highway Division 8. XEN, Panchayti Raj, Rupnagar 9. Naib Tehsildar, Nangal 10. EO MC Rupnagar 11. EO MC Chamkaur Sahib 12. District Town Planner, Rupnagar 13. EO MC, Nangal

7.Ludhiana	1.Additional Deputy Commissioner Jagraon.	1. District Revenue Officer Ludhiana 2. BDPO,Ludhiana-2 3. BDPO,Dehlon 4. BDPO,Pakhowal 5. BDPO,Raikot 6. BDPO,Jagraon 7. BDPO,Sudhar 8. BDPO,Sidhwan Bet 9. BDPO,Samralla 10. BDPO,Machhiwara Sahib 11. BDPO,Doraha 12. BDPO,Malauth 13. BDPO,Ludhiana-1
8.Fatehgarh Sahib(SC)	1.Chief Minister Field Officer, Fatehgarh Sahib  2.District Revenue Officer, Fatehgarh Sahib	1. District Social Security Officer, Fatehgarh Sahib 2. Dy. Registrar of Co-operative Societies, Fatehgarh Sahib 3. Asstt. Registrar of Co-operative Societies, Bassi Pathana 4. Asstt. Registrar of Co-operative Societies, Amlah 5. Asstt. Registrar of Co-operative Societies, Sirhind 6.Asstt. Food Supply Officer, Amlah 7. Asstt. Food Supply Officer, Sirhind 8. Asstt. Food Supply Officer, Bassi Pathana 9. Asstt. Food Supply Officer, Khamano 10. District Town Planner, Fatehgarh Sahib
9.Faridkot	1. DSSO Faridkot 2.Dy. District Education Officer, Faridkot	1.District Revenue Officer, Faridkot 2.XEN, Punjab Mandi Board, Faridkot 3.XEN, Drains, Faridkot 4.Professor, Govt. Brijindra College , Faridkot
10.Ferozepur	1.ADC ( General) Ferozepur	1. SE, Irrigation, Ferozepur 2. AR, Co-operative society Ferozepur 3. Deputy Director Horticulture, Ferozepur 4.General Manager, Punjab Roadways, Ferozepur 5.District Town Planner, Ferozepur 6.XEN Soil Conservation, Ferozepur 7.District Education Officer (SE), Ferozepur



		8.District Education Officer (EE), Ferozepur 9.Deputy District Education Officer (SE), Ferozepur 10.Deputy District Education Officer (EE), Ferozepur
11-Bathinda	1.Commissioner, Municipal Corporation, Bathinda  2. District Social Security Officer, Bathinda	1. Professor of PAU Bathinda 2. Principal GSSS, Pathrala 3. Principal GSSS, Maluka 4. Principal Khalsa Sr.Sec.School, Bathinda 5. Principal Khalsa School, Talwandi Sabo 6. Principal,GSSS (Girls), Mall Road, Bathinda 7. Head Mistress, GHS, Chandsar Basti, Bathinda 8. Principal, GSSS, Buladewala 9. Principal, GMSSS Rai Ke Kalan 10.Principal GSSS, Siryewala
12.Sangrur	1. Dy. DEO (S),Sangrur  2. Deputy Registrar Co- operative Socities, Sangrur  3. Assistant Director Fisheries, Sangrur  4. Deputy Director Factory, Sangrur	1.District Revenue Officer, Sangrur 2.District Revenue Officer, Barnala 3.Deputy Director, Youth Service , Sangrur 4.District Town Planner, Sangrur 5.XEN, Water Supply &Sanitation, Division, Barnala 6.XEN, Water Supply & Sanitation, Division, Malerkotla 7.Sub Divisional Officer (PWD B& R), Sangrur 8.XEN Mandi Board, Barnala 9.District Mandi Officer, Sangrur 10.District Mandi Officer, Barnala 11.District Welfare Officer, Sangrur 12.SDO, PSPCL, Badrukhan, Sangrur 13.Principal, Govt. Sen. Sec.School, Thales, Sangrur 14.Principal, Govt. Sen. Sec.School, Tunga, Sangrur 15.Principal, Govt.SSS (Girls), Thikriwal, Barnala 16.Principal, Govt.SSS (Boys), Longowal, Sangrur 17.Principal, Govt.SSS (Boys), Dirba, Sangrur

13. Patiala	<p>1. Addl. Chief Administrator, PDA, Patiala</p> <p>2. Estate Officer, PDA, Patiala</p>	<p>1. Executive Engineer Drainage-cum-Mining &amp; Geology Div., Patiala</p> <p>2. XEN, CE, HQ, PWD, B&amp;R, (Building Branch), Patiala</p> <p>3. XEN, Punjab Mandi Board, Patiala</p> <p>4. District Education Officer (S), Patiala</p> <p>5. Executive Engineer, Central Works Division Sangrur at Patiala</p> <p>6. District Sports Officer, Patiala</p> <p>7. District Program Officer, Patiala</p> <p>8. Environmental Engg., Punjab Pollution Control Board, Patiala</p> <p>9. District Mandi Officer, Patiala</p> <p>10. District Education Officer (EE), Patiala</p> <p>11. XEN, Construction Division, PWD, B &amp; R, Patiala</p> <p>12. Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, B&amp;R, Patiala</p> <p>13. District Employment Officer, Patiala</p> <p>14. Chief Agriculture Officer, Patiala</p> <p>15. Deputy Director, Horticulture, Patiala</p> <p>16. District Family Welfare Officer, Patiala</p>
-------------	--	--

All the above officers, as mentioned in column (2) of the table shall cease to function as Assistant Returning Officer with the completion of the General Elections to the Lok Sabha, 2024.

By Order,



(SOUMYAJIT GHOSH)

SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA



## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 23 अप्रैल, 2024

3 बैशाख, 1946 (शक)

### अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, पंजाब सरकार के परामर्श से, एतद्वारा, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को पंजाब राज्य में उन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में नामोद्दिष्ट करता है जैसा कि ऐसे अधिकारियों के समक्ष उक्त तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट है:-

### तालिका

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी	पूर्व मतगणना के ईटीपीबीएमएस के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी	आरओ की सहायता के लिए डाक-मतपत्र गणना और ईटीपीबीएमएस के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी
1. गुरदासपुर	1. डीडीपीओ गुरदासपुर 2. डीआरओ, गुरदासपुर 3. डीईओ (एस), गुरदासपुर 4. जिला खेल अधिकारी, गुरदासपुर	1. भूमि संरक्षण अधिकारी, गुरदासपुर 2. जिला रोजगार अधिकारी, गुरदासपुर 3. बीडीपीओ बटाला 4. कृषि अधिकारी, श्री हरगोबिन्दपुर, गुरदासपुर 5. सचिव मार्केट कमेटी कलानौर 6. प्रिंसिपल जीएसएसएस बी दीनानगर 7. प्रिंसिपल, जीएसएसएस सिधवां 8. प्रिंसिपल, जीएसएसएस गर्ल्स, सैदोवाल खुर्द 9. प्रिंसिपल, जीएसएसएस, नैनेकोट 10. प्रिंसिपल जीएसएसएस शेखूपुर 11. प्रिंसिपल जीएसएसएस ब्वाँयज फतेहगढ़ चूड़ियां 12. प्रिंसिपल आईटीआई डेरा बाबा नानक

		13. प्रिंसिपल, जीएसएसएस बहादुरपुर राजोया 14. प्रिंसिपल, जीएसएसएस खोजाला 15. प्रिंसिपल, जीएसएसएस बैराठ काजी चक 16. प्रिंसिपल जीएसएसएस किला टेक सिंह 17. प्रिंसिपल जीएसएसएस घुमान कलां 18. प्रिंसिपल जीएसएसएस गुरदासपुर 19. प्रिंसिपल जीएसएसएस गुरदास नंगल
2. अमृतसर	1. कार्यपालक इंजीनियर जलापूर्ति एवं स्वच्छता डिवीजन नं. 3, अमृतसर  2. वरिष्ठ मत्स्य पालन अधिकारी, राजा सांसी	1. नायब तहसीलदार, अट्टारी 2. नायब तहसीलदार (वसूली), अजनाला 3. नायब तहसीलदार अमृतसर-1 4. सब डिवीजनल इंजीनियर, अमृतसर विकास प्राधिकरण, पीयूडीए, अमृतसर 5. कृषि विस्तार अधिकारी, कथूनगल, मजीठा 6. एडीओ (विपणन), अमृतसर 7. सचिव, नगर निगम, अमृतसर 8. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, मार्कफेड मजीठा 9. प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज, अमृतसर 10. अधीक्षक, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, अमृतसर 11. प्रिंसिपल, जीएसएसएस, चब्बा 12. प्राध्यापक भौतिक विज्ञान, माई भागो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर गर्ल्स, अमृतसर 13. प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, जीएसएसएस, भकना 14. प्राध्यापक इंग्लिश, स्कूल ऑफ एमिनेंस, छेहरटा 15. प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस, माई भागो पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर गर्ल्स, अमृतसर 16. प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा, जीएसएसएस, ओथियन
3. खडूर साहिब	1. प्रिंसिपल, जीएसएसएस एकल गड्डा  2. प्रिंसिपल, जीएसएसएस मियां विंड  3. प्रिंसिपल, जीएसएसएस तूर	1. प्रिंसिपल, जीएसएसएस (बॉयज़) पट्टी 2. प्रिंसिपल, जीएसएसएस सखिरा 3. प्रिंसिपल, जीएसएसएस रटौल 4. प्रिंसिपल, जीएसएसएस पखोके 5. प्रिंसिपल, जीएसएसएस भिखी विंड 6. प्राध्यापक पंजाबी जीएसएसएस हरिके 7. प्राध्यापक गणित जीएसएसएस मियां विंड 8. प्राध्यापक अर्थशास्त्र, जीएसएसएस मियां विंड 9. प्राध्यापक अर्थशास्त्र, जीएसएसएस बाथ 10. प्राध्यापक पंजाबी, जीएसएसएस बाथ 11. प्राध्यापक गणित, जीएसएसएस बाथ



	4. प्रिंसिपल, जीएसएसएस लौहका	12. प्राध्यापक पंजाबी, जीएसएसएस मनोचाहल कलां 13. प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, जीएसएसएस मनोचाहल कलां 14. प्राध्यापक अंग्रेजी, जीएसएसएस कांग 15. प्राध्यापक इतिहास, जीएसएसएस बहमनीवाला 16. प्राध्यापक गणित, जीएसएसएस झाबल कलां 17. प्राध्यापक हिंदी, जीएसएसएस (बॉयज़) तरन तारन 18. प्राध्यापक बायोलॉजी, जीएसएसएस (गर्ल्स) तरन तारन 19. प्राध्यापक पंजाबी, जीएसएसएस सोहल
4. जालन्धर	1. अपर उपायुक्त (शहरी विकास), जालन्धर	1. उप निदेशक, भू-अभिलेख, पंजाब, कपूरथला रोड, जालन्धर 2. सहायक श्रम आयुक्त, जालन्धर 3. डिप्टी डीईओ (एसई), जालन्धर 4. एसडीओ, डिवीजनल भूमि संरक्षण कार्यालय, जालन्धर
5. होशियारपुर (अ.जा.)	1. अपर उपायुक्त (ग्रामीण विकास), होशियारपुर  2. एक्सईएन जलापूर्ति एवं स्वच्छता, डिवीजन नं. 1, होशियारपुर  3. अधीक्षक ग्रेड 1 उपायुक्त का कार्यालय, होशियारपुर	1. कृषि विकास अधिकारी, होशियारपुर 2. प्राध्यापक पंडित जे. आर पॉलिटेक्निक कॉलेज, होशियारपुर 3. डिप्टी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद, होशियारपुर 4. एक्सईएन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, डिवीजन तलवाड़ा 5. एक्सईएन, पीएसपीसीएल, दसूहा 6. तहसीलदार टांडा 7. नायब तहसीलदार, शाम चौरासी 8. एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास, डीएवी कॉलेज, होशियारपुर  9. सब डिवीजन अधिकारी, एस.ई. कैनाल एंड डैम ऑफिस, होशियारपुर
6. आनन्दपुर साहिब	1. एसडीएम नंगल	1. जिला राजस्व अधिकारी, रूपनगर 2. बीडीपीओ, रूपनगर 3. बीडीपीओ, श्री चमकौर साहिब 4. बीडीपीओ, श्री आनन्दपुर साहिब 5. एक्सईएन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता-2, रूपनगर 6. एक्सईएन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता-1, रूपनगर 7. एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन 8. एक्सईएन, पंचायती राज, रूपनगर

		9. नायब तहसीलदार, नंगल 10. ईओ एमसी रूपनगर 11. ईओ एमसी चमकौर साहिब 12. जिला नगर योजनाकार, रूपनगर 13. ईओ एमसी, नंगल 14. जिला खेल अधिकारी, रूपनगर 15. जिला कार्यक्रम अधिकारी, रूपनगर 16. एसीएसटी (जीएसटी), रूपनगर
7. लुधियाना	1.अपर उपायुक्त जगराओं	1. जिला राजस्व अधिकारी लुधियाना 2. बीडीपीओ, लुधियाना-2 3. बीडीपीओ, डेहलॉ 4. बीडीपीओ, पखोवाल 5. बीडीपीओ, रायकोट 6. बीडीपीओ, जगराओं 7. बीडीपीओ, सुधार 8. बीडीपीओ, सिधवां बेट 9. बीडीपीओ, समराला 10. बीडीपीओ, माछीवाड़ा साहिब 11. बीडीपीओ, दोराहा 12. बीडीपीओ, मलौध 13. बीडीपीओ, लुधियाना-1
8. फतेहगढ़ साहिब (अ.जा.)	1.चीफ मिनिस्टर फील्ड ऑफिसर, फतेहगढ़ साहिब  2.जिला राजस्व अधिकारी, फतेहगढ़ साहिब	1. जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, फतेहगढ़ साहिब 2. डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, फतेहगढ़ साहिब 3. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, बस्सी पठाना 4. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, अमलोह 5. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, सरहिंद 6. सहायक खाद्य पूर्ति अधिकारी, अमलोह 7. सहायक खाद्य पूर्ति अधिकारी, सरहिंद 8. सहायक खाद्य पूर्ति अधिकारी, बस्सी पठाना 9. सहायक खाद्य पूर्ति अधिकारी, खमानो 10. जिला नगर योजनाकार, फतेहगढ़ साहिब
9. फरीदकोट	1. डीएसएसओ फरीदकोट 2. उप जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदकोट	1. जिला राजस्व अधिकारी, फरीदकोट 2. एक्सईएन, पंजाब मंडी बोर्ड, फरीदकोट 3. एक्सईएन, ड्रेनेज, फरीदकोट 4. प्रोफेसर, गवर्नमेंट ब्रिजिन्द्रा कॉलेज, फरीदकोट
10.फिरोज़पुर	1. एडीसी (जनरल) फिरोज़पुर	1. एसई, सिंचाई, फिरोज़पुर 2. एआर, सहकारी समिति फिरोज़पुर



		3. उप निदेशक बागवानी, फिरोज़पुर 4. महाप्रबंधक, पंजाब रोडवेज, फिरोज़पुर 5. जिला नगर योजनाकार, फिरोज़पुर 6. एक्सईएन मिट्टी संरक्षण, फिरोज़पुर 7. जिला शिक्षा अधिकारी (एसई), फिरोज़पुर 8. जिला शिक्षा अधिकारी (ईई), फिरोज़पुर 9. उप जिला शिक्षा अधिकारी (एसई), फिरोज़पुर 10. उप जिला शिक्षा अधिकारी (ईई), फिरोज़पुर
11-भटिण्डा	1. आयुक्त, नगर निगम, भटिण्डा  2. जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, भटिण्डा	1. प्रोफेसर, पीएयू भटिण्डा 2. प्रिंसिपल जीएसएसएस, पथराला 3. प्रिंसिपल जीएसएसएस, मलूका 4. प्रिंसिपल खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भटिण्डा 5. प्रिंसिपल खालसा स्कूल, तलवंडी साबो 6. प्रिंसिपल, जीएसएसएस (गर्ल्स), माल रोड, भटिण्डा 7. हेड मिस्ट्रेस, जीएचएस, चंदसर बस्ती, भटिण्डा 8. प्रिंसिपल, जीएसएसएस, बुलाडेवाला 9. प्रिंसिपल, जीएमएसएसएस राय के कलां 10. प्रिंसिपल जीएसएसएस, सिरयेवाला
12. संगरूर	1. डिप्टी डीईओ (एस), संगरूर 2. उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति, संगरूर 3. सहायक निदेशक मत्स्य पालन, संगरूर 4. उप निदेशक फैक्टरी, संगरूर	1. जिला राजस्व अधिकारी, संगरूर 2. जिला राजस्व अधिकारी, बरनाला 3. उप निदेशक, युवा सेवा, संगरूर 4. जिला नगर योजनाकार, संगरूर 5. एक्सईएन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, डिवीजन, बरनाला 6. एक्सईएन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, डिवीजन, मालेरकोटला 7. सब डिवीजन अधिकारी (पीडब्ल्यूडी बी एंड आर), संगरूर  8. एक्सईएन मंडी बोर्ड, बरनाला 9. जिला मंडी अधिकारी, संगरूर 10. जिला मंडी अधिकारी, बरनाला 11. जिला कल्याण अधिकारी, संगरूर 12. एसडीओ, पीएसपीसीएल, बदरुखान, संगरूर 13. प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, थेल्स, संगरूर 14. प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तुंगा, संगरूर 15. प्रिंसिपल, गवर्नमेंट एसएसएस (गर्ल्स), ठीकरीवाल,

		बरनाला 16. प्रिंसिपल, गवन्मेंन्ट एसएसएस (बॉयज़), लोंगोवाल, संगरूर 17. प्रिंसिपल, गवन्मेंन्ट एसएसएस (बॉयज़), दिर्बा, संगरूर
13. पटियाला	1. अपर मुख्य प्रशासक, पीडीए, पटियाला 2. संपदा अधिकारी, पीडीए, पटियाला	1. कार्यपालक इंजीनियर ड्रेनेज-कम-माइनिंग एंड जिओलॉजी डिवीजन, पटियाला 2. एक्सईएन, सीई, एच क्यू, पीडब्ल्यूडी, बी एंड आर, (बिल्डिंग ब्रांच), पटियाला 3. एक्सईएन, पंजाब मंडी बोर्ड, पटियाला 4. जिला शिक्षा अधिकारी (एस), पटियाला 5. कार्यपालक इंजीनियर, सेंट्रल वर्क्स डिवीजन संगरूर, पटियाला 6. जिला खेल अधिकारी, पटियाला 7. जिला कार्यक्रम अधिकारी, पटियाला 8. पर्यावरण इंजीनियर, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटियाला 9. जिला मंडी अधिकारी, पटियाला 10. जिला शिक्षा अधिकारी (ईई), पटियाला 11. एक्सईएन, निर्माण डिवीजन, पीडब्ल्यूडी, बी एंड आर, पटियाला 12. कार्यपालक इंजीनियर, मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी, बी एंड आर, पटियाला 13. जिला रोजगार अधिकारी, पटियाला 14. मुख्य कृषि अधिकारी, पटियाला 15. उप निदेशक, बागवानी, पटियाला 16. जिला परिवार कल्याण अधिकारी, पटियाला

तालिका के स्तंभ (2) में यथा-उल्लिखित उपर्युक्त सभी अधिकारी लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 के समाप्त होने के बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में काम करने से परिवर्तित हो जाएंगे।

आदेश से,  
**सौम्यजीत घोष**

(सौम्यजीत घोष)

सचिव  
 भारत निर्वाचन आयोग